

तुरंत रिलीज के लिए

सिटी का नरचरिंग नेबरहुड्स प्रोग्राम, 2020 के लिए आभासी तौर पर हो रहा है

ब्रैम्पटन, ओनटैरियो (27 जुलाई, 2020) – सिटी ऑफ ब्रैम्पटन का नरचरिंग नेबरहुड्स प्रोग्राम (Nurturing Neighbourhoods Program), मंगलवार, 4 अगस्त, 2020 को वापस आएगा। इस वर्ष, स्टाफ और निवासियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को कायम रखने के लिए, प्रोग्राम ऑनलाइन किया जा रहा है।

नरचरिंग नेबरहुड्स प्रोग्राम का उद्देश्य, नागरिकों की भागीदारी को बेहतर बनाना, निवासियों को अपने पड़ोस को बेहतर बनाने के लिए सक्रिय भूमिका निभाने में सक्षम बनाना और उन्हें संसाधनों से जोड़ना है। निवासियों के लिए अपने पड़ोस के बारे में अधिक जानने और उनके लिए क्या महत्वपूर्ण है, इसे ऑनलाइन साझा करने के लिए तीन नए तरीके होंगे:

- **आभासी (वर्चुअल) वॉक्स** – 15 पहले से रिकॉर्ड की हुई वॉक्स (सैर), नियत तारीखों को सिटी की वेबसाइट पर पोस्ट की जाएंगी। निवासियों को सलाह दी जाती है कि वे इन वॉक्स में आभासी तौर पर हिस्सा लें या शारीरिक दूरी कायम रखते हुए, व्यक्तिगत रूप से अकेले इन वॉक्स में हिस्सा लेने के लिए, प्रदान किए गए टूल्स का उपयोग करें।
- **नेबरहुड सर्वेक्षण** – सिटी, समुदाय के पड़ोसों को समझना चाहती है और यह जानना चाहती है कि निवासी उनके अंदर कैसे आपसी व्यवहार करते हैं। निवासियों को सलाह दी जाती है कि वे अपने क्षेत्र के लिए ऑनलाइन सर्वेक्षण में हिस्सा लें।
- **ऑनलाइन मैपिंग टूल** – एक ऑनलाइन मैपिंग टूल, निवासियों को उनके पड़ोस के अंदर, अवसरों, चिंताओं और बदलावों को पहचानने की अनुमति देगा।

नरचरिंग नेबरहुड्स के बारे में अधिक जानकारी के लिए और आभासी नेबरहुड वॉक्स की पूरी सूची के लिए, www.brampton.ca/neighbourhoods पर जाएं।

संक्षिप्त तथ्य

- एक पूर्ण नेबरहुड ऑडिट (Complete Neighbourhood Audit) की जरूरत को ब्रैम्पटन 2040 विजन (Brampton 2040 Vision) में एक कार्रवाई के तौर पर माना गया था। नरचरिंग नेबरहुड्स की शुरुआत, 2019 में समुदाय से सुझाव लेने, निवासियों को संसाधनों से जोड़ने और लंबी अवधि में, लोकल पड़ोसों के लिए विशेष रूप से तैयार होने वाली कार्य योजना बनाने के लिए की गई थी।
- सिटी ने 2019 में, 11 नरचरिंग नेबरहुड्स वॉक्स पूरी की थीं, जिनमें 400 से अधिक निवासी शामिल हुए थे।

हवाले

“ब्रैम्पटन एक मोजैक है और हमारे निवासी विशेषज्ञ हैं, जब पड़ोसों की बात आती है, जिसे वे घर कहते हैं। नरचरिंग नेबरहुड्स प्रोग्राम, ब्रैम्पटन के निवासियों के लिए अपने समुदाय में शामिल होने के नवीन अवसर प्रदान करता है। मैं, इस वर्ष चुने गए 15 क्षेत्रों में रहने वाले हर व्यक्ति को सलाह देता हूँ कि, आभासी वॉक्स में और नेबरहुड सर्वेक्षणों में हिस्सा लेकर और ऑनलाइन मैपिंग टूल पर टिप्पणी करके, अपनी राय दें।”

- पैट्रिक ब्राउन (Patrick Brown), मेयर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

“जैसे कि सिटी लगातार कोविड-19 महामारी से बहाली की ओर बढ़ रही है और जहां संभव है, वहां सहूलियतों को दुबारा खोल रही है, इस समय समुदाय की सुरक्षा सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। इस वर्ष का नरचरिंग नेबरहुड्स प्रोग्राम, निवासियों के लिए 15 लोकल पड़ोसों के बारे में अपने विचार प्रकट करने और स्थिर समुदाय बनाना जारी रखने में, सिटी की मदद का एक सुरक्षित तरीका प्रदान करता है।”

- मार्टिन मेडेइरोस (Martin Medeiros), रीजनल काउंसलर, वार्ड्स 3 और 4; चेयर, प्लानिंग एंड डेवलेपमेंट कमेटी, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

“नरचरिंग नेबरहुड्स प्रोग्राम, निवासियों को यह साझा करने की अनुमति देता है कि उन्हें अपने समुदाय के बारे में क्या पसंद है। साथ ही निवासी, आने वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में जान सकते हैं और इस बारे में अपने विचार प्रकट कर सकते हैं कि वे लोकल तौर पर, कौन-से बदलाव देखना चाहते हैं। हालांकि इस वर्ष प्रोग्राम थोड़ा अलग होगा, पर फिर भी निवासी, अपने घरों से ही पूरी सुरक्षा के साथ, शामिल होकर अपने पड़ोस में वृद्धि कर सकते हैं।”

- पैट फोर्टिनी (Pat Fortini), रीजनल काउंसलर, वार्ड्स 7 और 8; वाइस-चेयर, प्लानिंग एंड डेवलेपमेंट कमेटी, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

“सिटी, कोविड-19 महामारी के दौरान, ब्रैम्पटन के निवासियों को सेवा देने के लिए प्रतिबद्ध है। जैसे कि हम नरचरिंग नेबरहुड्स प्रोग्राम को ऑनलाइन कर रहे हैं, हम अपने समुदाय को सुरक्षित रखते हुए, निवासियों को और उनके विचारों को शामिल करना जारी रखने के लिए उत्साहित हैं।”

- डेविड बैरिंक (David Barrick), चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

-30-

मीडिया संपर्क

मोनिका दुग्गल (Monika Duggal)

कोऑर्डिनेटर, मीडिया एंड कम्युनिटी एन्गेजमेंट

स्ट्रैटजिक कम्युनिकेशन

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca